



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 23-03-2021

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-03-23 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2021-03-24	2021-03-25	2021-03-26	2021-03-27	2021-03-28
वर्षा (मिमी)	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	20.0	19.0	20.0	20.0	21.0
न्यूनतम तापमान(से.)	8.0	9.0	8.0	8.0	9.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	55	55	50	45	45
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	35	35	30	30	30
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10.0	8.0	6.0	6.0	6.0
पवन दिशा (डिग्री)	120	330	320	320	320
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	2	0	0	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में मौसम साफ रहेगा। लेकिन आज 23 मार्च को कहीं-कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। हवा के 6-10 किमी/घंटे की गति से उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने की सम्भावना है। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 19.0 से 21.0 व 8.0 से 9.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ईआरएफएस के अनुसार 28 मार्च से 3 अप्रैल के दौरान जिले में वर्षा सामान्य से कम रहने का अनुमान है।

सामान्य सलाहकार:

कोविड-19 के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसानों को सलाह है कि तैयार फसलों की कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों के दौरान भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अन्तराल पर हाथ धोना तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाये रखने पर विशेष ध्यान दें। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त एनडीवीआई व एसपीआई मानचित्रों ने संकेत दिया कि नैनीताल जिले के लिए एनडीवीआई 0.2-0.35 के बीच है, यानी जिले में कृषि स्थिति मध्यम है तथा एसपीआई मानचित्र पिछले 4 हफ्तों से नैनीताल जिले में हल्की सूखे की स्थिति दर्शाता है।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में मौसम साफ रहेगा। लेकिन आज 23 मार्च को कहीं-कहीं हल्की वर्षा हो सकती है।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	माह के द्वितीय पखवाड़े में चेतकी धान (असिंचित) की बुवाई करें।
टमाटर	घाटी क्षेत्रों में टमाटरकी तैयार पौध का रोपण 60 से 60 सेमी0 दूरी पर करें। रोपाई से पूर्व जड़ों को इमिडाक्लोप्रिड 1ग्राम/लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 10-15 मिनट तक डुबाने के बाद रोपाई करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मिर्च	मिर्च की अगेती रोपी गई फसल में सिकुड़े हुए चित्तकबरे पत्ते दिखाई देने पर ग्रसित पौधों को निकालकर नष्ट करें। तथा रस चूसने वाले कीड़ों के नियंत्रण हेतु सर्वांगी कीटनाशी का छिड़काव करें।
बैंगन	सीमित सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए बैंगन बीजों की बुवाई पौधशाला में करें।
भेंस	पशुओं के बैठने का स्थान समतल होता चाहिए जिससे उनकी उत्पादन क्षमता प्रभावित न हो तथा इस समय नवजात पशुओं के रख-रखाव पर विशेष ध्यान दें। गर्भवती पशुओं में प्यूरपरल बुखार को रोकने के लिए, प्रतिदिन 50-60 ग्राम खनिज मिश्रण को पशुओं की प्रतिरक्षा को बढ़ाने हेतु आहार के रूप में दें।
सब्जी पीईए	मटर की तैयार फलियों की तुड़ाई करें।